

**उत्तराखण्ड शासन**  
**उच्च शिक्षा अनुभाग-4**  
**संख्या- /XXIV(4)/2019-01(01)2019**  
**देहरादून : दिनांक / / फरवरी, 2019**  
**संशोधन/विज्ञप्ति**

शासन के नवनियुक्ति/तैनाती आदेश संख्या-183/XXIV(4)/2019-01(01)2019, दिनांक 06 फरवरी, 2019 द्वारा प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर-वनस्पति विज्ञान (वेतनमान ₹ 57700-182400 एकेडमिक लेवल-10) के पद पर कतिपय/विभिन्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन कुल 41 अभ्यर्थियों को नियुक्ति/तैनात किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में उक्त शासनोदश संख्या-183, दिनांक 06 फरवरी, 2019 में उल्लिखित तालिका के क्रमांक संख्या-5, 9, 18, 20, 26 एवं 40 पर अंकित अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित राजकीय महाविद्यालयों के नाम में हुई त्रुटियों के दृष्टिगत निम्नवत कॉलम-6 के अनुसार आंशिक संशोधन किया जाता है-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	विषय	पत्राचार का पता	तैनाती महाविद्यालय	तैनाती हेतु संशोधित महाविद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	ऋचा बधानी	वनस्पति विज्ञान	मार्फत श्री गुरु प्रसाद बिजलवाण, 14 बीघा, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल, ऋषिकेश-249137,	रामचन्द्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जनपद-उत्तरकाशी।	रामचन्द्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी।
2	दीपक कुमार सिंह	वनस्पति विज्ञान	ग्राम-मनकेयॉन, पो0-मनकेयॉन, जिला-वाराणसी-22130 7, उत्तर प्रदेश।	रामचन्द्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जनपद-उत्तरकाशी।	रामचन्द्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी।
3	विवेक कुमार	वनस्पति विज्ञान	अतिथि सहायक प्राध्यापक, वनस्पति विज्ञान विभाग, मोतीराम बाबूराम पी.जी. कॉलेज, हल्द्वानी-263139	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जनपद-चम्पावत।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चम्पावत।
4	भारती	वनस्पति विज्ञान	वनस्पति एवं माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान विभाग, एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, बिरला चौरास कैम्पस, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखण्ड-246174	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जनपद-पिथौरागढ़।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़।
5	रेनू	वनस्पति विज्ञान	भरतपुरी, निकट ग्रेड मिशन स्कूल, रामनगर, नैनीताल-244715	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जनपद-पिथौरागढ़।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़।
6	विपिन चन्द्र	वनस्पति विज्ञान	ग्राम-झण्डी चौड़ पश्चिमी, पो0-झण्डी चौड़ (कोटद्वार), जिला-पौड़ी गढ़वाल-246149	स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी।	रामचन्द्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी।

2- शासन के उपर्युक्त नवनियुक्ति/तैनाती आदेश संख्या-183, दिनांक 06 फरवरी, 2019 की अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगी।

(शिव स्वरूप त्रिपाठी)  
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-298 (1)/XXIV(4)/2019-01 (01)/2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
- 3- निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
- 4- निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 6- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 7- सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 8- सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा-निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 10- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

  
(शिव स्वरूप त्रिपाठी)  
उप सचिव।